

Ref No.: SECY/S-16/2025

14<sup>th</sup> November, 2025

BSE Ltd.  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001  
Ph. No.: 022-22723121  
**COMPANY NO. 507828**

**SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS  
(STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR  
ENDED 30<sup>TH</sup> SEPTEMBER, 2025.**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper clipping of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2025 which have been approved by the Board of Directors at its meeting held on Thursday, 13<sup>th</sup> November, 2025, published today i.e. 14<sup>th</sup> November, 2025, in **Business Standard** (English and Hindi), New Delhi Edition.

This is for your information and records please.

Thanking you.

Yours faithfully,  
**For Ansal Housing Limited**

**(Shalini Talwar)**  
**Compliance Officer**

---


**Ansal Housing Limited**

— An ISO 9001:2015 Company —

(Formerly known as Ansal Housing & Construction Ltd.)

Regd. Office : 606, 6th Floor, Indra Prakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi - 110001, Ph. : 91-11-23317466, 23315108

Head Office : GF - SR - 18, Ansal Plaza, Sector - 1, Vaishali, Ghaziabad, U.P. - 201010. Ph. : 91-120-3854000, 4195100

E-mail : ahl@ansals.com Website : www.ansals.com  www.facebook.com/AnsalsHousing CIN : L45201DL1983PLC016821

NOTICE

Notice is hereby given that the share certificate(s) for the under mentioned equity shares of **Hindustan Unilever Limited** have been lost / misplaced and I am applying to the Company for issue duplicate share certificate(s).Any person who has any claim in respect of the said shares should write to our Registrar, **KFIN TECHNOLOGIES PVT. LTD, SELENIUM TOWER B, PLOT NO. 31-32, GACHIBOWLI, FINANCIAL DISTRICT, NANAKRAMGUDA,SERILINGAMPALLY, HYDERABAD – 500032 TELANGANA** within one month from this date else the Company will proceed to issue duplicate Certificate(s) to the aforesaid holder/claimant without any further intimation and no further claim would be entertained from any person(s).

Company Name	Folio No.	Name of Shareholders	No. of Shares	Certificate No.	Distinctive Nos.
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	HLL3030529	LATE SIWARAJ AGARWAL	9900	5324863	1334927341 to 1334937240

Date: 14-11-2025  
Place: New Delhi

Name(s) of Shareholder/Claimant(s): ,  
ROHIT AGARWAL  
B-160, SFS Flat, Mount Kailash, East of Kailash, South Delhi, Delhi, 110065

NOTICE

Notice is hereby given that the share certificate(s) for the under mentioned equity shares of **RELIANCE INDUSTRIES LIMITED** have been lost / misplaced and I am applying to the Company for issue duplicate share certificate(s).Any person who has any claim in respect of the said shares should write to our Registrar, **KFIN TECHNOLOGIES PVT. LTD, SELENIUM TOWER B, PLOT NO. 31-32, GACHIBOWLI, FINANCIAL DISTRICT, NANAKRAMGUDA,SERILINGAMPALLY, HYDERABAD – 500032 TELANGANA** within one month from this date else the Company will proceed to issue duplicate Certificate(s) to the aforesaid holder/claimant without any further intimation and no further claim would be entertained from any person(s).

Company Name	Folio No.	Name of Shareholders	No. of Shares	Certificate No.	Distinctive Nos.
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	024690334	Chand Ujjal Singh (Deceased)	296	62215751 66410639 13041901 13041902	002185703594-002185703667, 006853558730-006853558877 103057929-103057978 103057979-103058002

Date: 14-11-2025  
Place: New Delhi

Name(s) of Shareholder/Claimant(s): ,  
VIKRAMJIT SINGH



DREDGING CORPORATION OF INDIA LIMITED

CIN No:L29222DL1976PLC008129

R.O: Core-2, 1st Floor, "Scope Minar", Plot No.2A & 2B,  
Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110091

H.O: "Dredge House", HB Colony Main Road, Seethammadhara,  
Visakhapatnam - 530022

E-mail ID: kalabhinetri@dcil.co.in Tel. No. – 0891-2523250;  
Fax. No. – 0891- 2560581; Website : www.dredge-india.com

Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the year ended 30th September 2025						
(Rs. in Lakhs)						
S. No	Particulars	Quarter ended 30/9/25	Quarter ended 30/9/24	Half Year ended 30/9/25	Half Year ended 30/9/24	Year ended 31/03/25
1	Total revenue from operations	21178.80	20449.67	45403.27	35529.28	114213.87
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	-3306.76	-5528.00	-5626.19	-8626.43	-4413.67
3	Net Profit(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-3306.76	-3297.20	-5626.19	-6395.63	-2608.56
4	Net Profit(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-3417.66	-3350.59	-5750.91	-6491.07	-2745.66
5	Total comprehensive Income for the period (comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	-3417.66	-3350.59	-5750.91	-6491.07	-3379.65
6	Paid-up equity share capital	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00
7	Reserves excluding revaluation reserves			113005.78	116239.14	119349.01
8	Securities premium reserve			0	0	0
9	Net Worth			115805.78	119039.14	1223149.01
10	Net Debt Equity Ratio			0.91:1	0.52:1	0.76:1
11	Debenture Redemption Reserve			0	0	0
12	Debt Service Coverage Ratio			0.24:1	0.03:1	0.93:1
13	Interest Service Coverage Ratio			1.99:1	0.21:1	3.86:1
14	Earnings Per share (EPS) (in `)					
	a.Basic	-12.21	-11.97	-20.54	-23.18	-12.07
	b.Diluted	-12.21	-11.97	-20.54	-23.18	-12.07

- Note:
1.

The above is an extract of the detailed format of Half yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same is available on the Stock Exchange websites – [www.nseindia.com](#), [www.bseindia.com](#), [www.cseindia.com](#) and on the company’s website – [www.dredge-india.com](#).
2.

For the items referred to in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to Mumbai Stock Exchange and can be accessed on [www.bseindia.com](#) and on the company’s website – [www.dredge-india.com](#).

By order of the Board

For Dredging Corporation of India Limited


Sd/-

(Capt.S.Divakar)

Managing Director & CEO (Addl. Charge)

Place: Visakhapatnam

Date : 12.11.2025



एमएमटीसी  
MMTC LIMITED  
भारत सरकार का उपक्रम  
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE  
touching lives, adding value

MMTC LIMITED  
CIN : L51909DL1963GOI004033  
(A Govt of India Enterprise)  
Core - 1, Scope Complex 7, Institutional Area, Lodhi Road New Delhi - 110 003.  
Email: [mmtc@mmtclimited.com](#) Website : [www.mmtclimited.com](#)

Extract of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30/09/2025

(` ₹ in Crores, except per share data)

S.No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter ended		Half year ended		Year ended	Quarter ended		Half year ended		Year ended
		30-Sep-25 (Unaudited)	30-Sep-24 (Unaudited)	30-Sep-25 (Unaudited)	30-Sep-24 (Unaudited)		30-Sep-25 (Unaudited)	30-Sep-24 (Unaudited)	30-Sep-25 (Unaudited)	30-Sep-24 (Unaudited)	
1	Total income from operations	1.10	1.56	2.46	2.21	2.69	1.10	1.56	2.46	2.21	2.69
2	Net Profit/(Loss) before tax (before exceptional items)	14.33	11.65	60.20	98.02	111.53	14.33	11.65	60.20	98.02	111.53
3	Share of Profit/(Loss) of Joint Venture (net of tax)	-	-	-	-	-	37.22	9.89	44.81	10.97	17.10
4	Net Profit/(Loss) before tax (after exceptional items)	392.33	39.40	438.21	81.63	97.20	429.55	49.29	483.02	92.60	114.30
5	Net Profit/(Loss) after tax (after exceptional items)	133.59	38.16	170.26	69.77	69.53	170.81	48.05	215.07	80.74	86.63
6	Total Comprehensive Income Comprising Net Profit/(Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax	107.14	51.11	176.05	83.59	101.69	144.37	61.00	221.16	94.60	118.55
7	"Paid up Equity Share Capital (Face value of share ₹ 1 Each)"	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
8	Other equity (excluding Revaluation Reserve)			1482.10	1287.95	1306.05			1,773.35	1,523.65	1,552.19
9	Earnings per share (of ₹ 1/- each) (not annualised):										
	(a) Basic	0.89	0.25	1.14	0.47	0.46	1.14	0.32	1.43	0.54	0.58
	(b) Diluted	0.89	0.25	1.14	0.47	0.46	1.14	0.32	1.43	0.54	0.58

Notes:

(1)

The above results have been reviewed by Audit Committee of the Board of Directors in their meeting held on 13.11.2025 and approved by the Board of Directors in the meeting held on the same day.

(2)

The statutory auditors of the Company have carried out the limited review of these financial results as required under Regulation 33 and 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(3)

Previous quarters/year's figures have been re-grouped /re-arranged accordingly to make them comparable, wherever necessary.

(4)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ([www.nseindia.com](#) & [www.bseindia.com](#)) and Company's website ([www.mmtclimited.com](#))

Place: New Delhi


Date: 13.11.2025

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

s/-

(Anoopa Sankarankutty Nair)

Dir (F) Din : 11138663





ENRICHING LIVING STYLES

Registered Office: 606, 6th Floor, Indra Prakash, 21 Barakhamba Road, New Delhi–110 001  
Head Office: GF-SR-18, Ansal Plaza Mall, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010  
Email ID:[sect@ansals.com](#) Website:[www.ansals.com](#) CIN:L45201DL1983PLC016821

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025

The Board of Directors of the Company at its meeting held on Thursday, November 13, 2025, have approved the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the Quarter and Half year ended September 30, 2025 and the same have been filed with the Stock Exchange i.e. BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.  
The Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) along with Limited Review Report, are available on the website of the Company at [https://www.ansals.com /common /pdfs /ufsrc-spec25.pdf](https://www.ansals.com/common/pdfs/ufsrc-spec25.pdf). In Compliance with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby notify that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) Code:



For and on behalf of the Board

Sd/-


(KUSHAGR ANSAL)

Managing Director & CEO

DIN: 01216563

Place: Vaishali, Ghaziabad

Date: 13 November, 2025



Elgi Rubber Company Limited

CIN: L25119TZ2006PLC013144  
Regd. Office: Super A Unit, Coimbatore Private Industrial Estate, Kuruchi, Coimbatore - 641021, TamilNadu  
Telephone No.: 0422-4321000 E-mail Id: [info@in.elgirubber.com](#) Website: [www.elgirubber.com](#)  
Extract of consolidated unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025

(Rs.in Lakhs, except EPS)

Sl. No.	Particulars	Consolidated					
		Quarter ended		Half Year ended		Year ended	
		Sep 30, 2025 (unaudited)	Jun 30, 2025 (unaudited)	Sep 30, 2024 (unaudited)	Sep 30, 2024 (unaudited)	Sep 30, 2024 (unaudited)	March 31, 2025 (audited)
1	Total Income from Operations	9,699.48 (646.34)	9,486.28 5.33	9,796.29 (454.13)	19,185.76 (641.01)	20,614.25 87.08	39,995.52 (2,142.26)
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(593.80)	5.33	(454.13)	(588.47)	1,595.10	(450.54)
3	Net Profit/ (Loss) for the period (after tax and after exceptional items)	(601.02)	(151.45)	(412.77)	(752.47)	1,615.64	(436.01)
4	Net Profit/ (Loss) for the period (after tax and after exceptional items)	(603.37)	(153.82)	(407.96)	(757.18)	1,625.27	(445.45)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50
6	Paid up equity share capital (face value of Re.1/- each)						
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,408.74
8	Earnings Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	a. Basic (in Rs.)	(1.20)	(0.30)	(0.82)	(1.50)	3.23	(0.87)
	b. Diluted (in Rs.)	(1.20)	(0.30)	(0.82)	(1.50)	3.23	(0.87)

Key numbers of standalone financial results

Sl. No.	Particulars	Standalone					
		Quarter ended		Half Year ended		Year ended	
		Sep 30, 2025 (unaudited)	Jun 30, 2025 (unaudited)	Sep 30, 2024 (unaudited)	Sep 30, 2025 (unaudited)	Sep 30, 2024 (unaudited)	March 31, 2025 (audited)
1	Total Income from Operations	6,308.54 (136.46)	6,273.61 763.84	6,295.90 (23.66)	12,582.15 (23.66)	12,638.19 730.56	23,786.47 (489.88)
2	Net Profit/ (Loss) for the period before tax	(125.42)	603.93	21.74	478.51	766.39	(425.70)
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax						
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(127.78)	601.57	26.55	473.79	776.02	(435.14)

Notes:

1

The above is an extract of the detailed format of the unaudited consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited consolidated and standalone financial results are available on the website of the National Stock Exchange of India Limited i.e. [www.nseindia.com](#) and on the website of the company i.e., [www.elgirubber.com](#). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

2

In accordance with regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the consolidated and standalone financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025 as reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board, has been approved by the Board of Directors at its meeting held on November 13, 2025. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on these results.

3


Figures for the corresponding quarter / period ended have been regrouped wherever necessary.

4

Exceptional Items represents Profit on sale of assets.

Place: Coimbatore

Date : November 13, 2025



For Elgi Rubber Company Limited

Sudarsan Varadaraj

Chairman and Managing Director

DIN : 00133533

**RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED**  
CIN: L34300HR1983PLC023187  
Regd. & Corp. Office: 38 KM Stone, Delhi-Jaipur Highway, Gurugram-122001, Haryana  
Tel: 0124 2824117, Fax: 0124 2824200, Email: [cs@ricoauto.in](#),  
Website: [www.ricoauto.in](#)

NOTICE TO SHAREHOLDERS

2ND REMINDER TO PHYSICAL SHAREHOLDERS SPECIAL WINDOW FOR ONLY RELODGEEMENT OF TRANSFER DEEDS FOR SHARES HELD IN PHYSICAL MODE

Notice is hereby given that Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, opened a special window for a period of six months i.e. from 7th July, 2025 to 6th January, 2026 to facilitate re-lodgement of share transfer deeds only. Pursuant to the said circular, the Company had published the notices on 17th July, 2025 and 9th September, 2025 which were also made available to the Stock Exchanges and website of the Company.

This facility is specifically applicable to only such cases where the original share transfer requests were lodged prior to 1st April, 2019 and returned/rejected/not attended due to deficiencies in documents/process or otherwise. Such cases can now be re-lodged after rectifying the errors during the period i.e. from 7th July, 2025 to 6th January, 2026.

The shareholders are requested to note that the shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form, once all documents are found in order by MCS Share Transfer Agent Limited (RTA). Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at below address or write to the Company at [cs@ricoauto.in](#) for further assistance. The lodger must have demat account and provide Client Master List (CML) along with transfer documents, and share certificates, while re-lodging the documents for transfer to RTA.

UPDATE KYC AND CONVERT PHYSICAL SHARES INTO DEMAT MODE

The shareholders who are holding shares in physical form are requested to update their KYC and also convert their physical share Certificate into dematerialized form (electronic form) at the earliest. The shareholders are also requested to claim their unclaimed dividend amounts, otherwise, the corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will be transferred to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) as per the procedure set out in the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

For any further queries, write to :  
MCS Share Transfer Agent Limited  
Unit: Rico Auto Industries Limited  
179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor,  
Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi – 110 020  
Tel: (011)41406149  
E-mail: [helpdeskdelhi@mcsregistrars.com](#)

for Rico Auto Industries Limited

Sd/-

Ruchika Gupta

Company Secretary, FCS No. 6456

Date : 13th November, 2025

Place : Gurugram



